



कॉमकास्ट राइज इन्वेस्टमेंट फंड, छोटे व्यवसायों को जिसे अन्य रंग के लोग (POC) या महिलाएं चलाती हैं, उन्हें महामारी की चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान करता है।

निवेश कोष कॉमकास्ट राइज (प्रतिनिधित्व, निवेश, ताकत और सशक्तिकरण) का एक विस्तार है, जो 2020 में POC या महिलाओं के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों को प्रदान करने के लिए शुरू की गई बहु-वर्षीय, बहुआयामी पहल है, जिससे कॉमकास्ट बिज़नेस और Effectv से विपणन और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए आवेदन करने का अवसर मिलता है, जो कि कॉमकास्ट केबल का विज्ञापन बिक्री विभाग है। कॉमकास्ट राइज ने यूरीका के साथ भी साझेदारी की है ताकि अनुदान प्राप्तकर्ताओं को कंपनी की नींव, बढ़ते ग्राहकों और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करनेवाले कौशल बनाने में मदद करने के लिए व्यावसायिक कोचिंग प्रदान की जा सके। यूरीका का विकास केंद्र एक व्यवसायी की वेबसाइट के लिए प्रमुख विकास संकेतकों का एक में ही सब शामिल दृश्य प्रदान करता है।

कॉमकास्ट राइज यह \$ 100 मिलियन की एक बड़ी विविधता, इक्विटी और समावेशन पहल का हिस्सा है जिसे कॉमकास्ट ने जून 2020 में लॉन्च किया था। कॉमकास्ट NBCUniversal ने एक व्यापक, बहु-वर्षीय योजना के विकास की घोषणा की जिसमें अगले तीन साल तक \$75 मिलियन नकद और \$25 मिलियन मीडिया में आवंटित किया जाएगा। इसका उपयोग किसी भी जाति, जातीयता, लिंग पहचान, यौन अभिविन्यास या क्षमता के खिलाफ होने वाले अन्याय और असमानता से लड़ने के लिए किया जाएगा।

### अनुदान विवरण

500 अनुदान जो \$5 मिलियन का कुल अनुदान होगा निम्नानुसार वितरित किया जाएगा:

- हर एक शहर में 100 छोटे व्यवसाय को
- हर एक व्यवसाय को \$10,000 का आर्थिक अनुदान प्राप्त होगा
- आवेदन की अवधि 3-16 अक्टूबर, 2022 है
- नवंबर 2022 के अंत में अनुदान की घोषणा की जाएगी और दिसंबर 2022 में सम्मानित किया जाएगा
- आवेदन [www.comcastrise.com](http://www.comcastrise.com) पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।

### अनुदान पात्रता

व्यवसायियों को चाहिए:

- 3 या अधिक वर्षों से व्यावसायिक संचालन स्थापित होना चाहिए
- एक से 25 कर्मचारी होने चाहिए
- पात्र होने के लिए निम्नलिखित भौगोलिक स्थानों में होना चाहिए:
  - शिकागो, IL (कुक काउंटी);
  - मियामी, FL (मियामी-डेड और ब्रोवर्ड काउंटी);
  - ओकलैंड, CA (ओकलैंड शहर);
  - सिएटल, WA (किंग एंड पियर्स काउंटियां);
  - वाशिंगटन, D.C. (वार्ड 1-8)
- पात्रता विवरण की पूरी सूची के लिए [www.comcastrise.com](http://www.comcastrise.com) पर जाएं

अगर कोई व्यवसाय कॉमकास्ट राइज इन्वेस्टमेंट फंड के लिए योग्य नहीं है, तो विपणन और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए आवेदन खुले हैं।

अब  
बढ़ने का समय है  
आज ही आवेदन करें।  
[ComcastRISE.com](http://ComcastRISE.com)

